

Seat No. : _____

AJ-123 (H)

April-2023

B.Com., Sem.-IV

208 : Taxation – II

Time : 2:30 Hours]

[Max. Marks : 70

(Hindi Version)

- निर्देश :**
- (1) दायीं ओर के अंक प्रश्न के गुण दर्शाते हैं ।
 - (2) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
 - (3) आवश्यक गणनाएँ उत्तर के भाग के रूप में दर्शाएँ ।

1. श्री निर्मित ने ता. 31 मार्च, 2022 को समाप्त होते वर्ष के लिए अपने व्यवसाय का निम्न लाभ-हानि खाता तैयार किया :

14

उधार	लाभ-हानि		खाता
जमा			
विवरण	₹	विवरण	₹
सामान्य खर्च	75,000	सकल लाभ	15,28,100
स्टाफ वेतन	8,80,000	बट्टा एवं कमिशन	55,000
डूबत ऋण	5,000	समता अंश पर लाभांश	8,000
डूबत ऋण संचय	8,000	डूबत ऋण वसूली	22,000
कर के लिए प्रावधान	47,000	शेयर विक्रय पर लाभ	78,000
आयकर	88,000	मशीन के विक्रय पर लाभ	2,500
बीमा प्रीमियम	12,000		
मोटर-कार व्यय	24,000		
आग से नुकसान	44,000		
कानूनी खर्च	8,000		
मान्य ट्रस्ट को दान	13,000		
शुद्ध लाभ	4,89,600		
	16,93,600		16,93,600

अतिरिक्त जानकारी :

- (1) स्टाफ वेतन में उनकी पत्नी का ₹ 1,20,000 वेतन शामिल है जो व्यवसाय में नियमित रूप से कार्य करती है।
 - (2) बीमा प्रीमियम में जीवन बीमा प्रीमियम के ₹ 5,000 शामिल हैं।
 - (3) डूबत ऋण वसूली की 30% राशि पूर्व वर्ष में अनुमत नहीं थी।
 - (4) मोटर-कार का 2/3 उपयोग निजी कार्यों के लिए होता है।
 - (5) मोटर-कार पर अनुमत मूल्हास 20% है। मोटर-कार का आरम्भिक (W.D.V.) शेष ₹ 2,40,000 था।
- कर-निर्धारण वर्ष 2022 – '23 के लिए व्यवसाय से कर-योग्य आय की गणना करो।

अथवा

डॉ. जादव की ता. 31-3-2022 को समाप्त होते वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान से सम्बन्धित जानकारीयों निम्नानुसार हैं :

14

प्राप्ति	₹	भुगतान	₹
विजीट फीस	5,60,000	डिस्पेन्सरी का किराया	3,20,000
कन्सल्टेशन फीस	6,40,000	स्टाफ का वेतन	3,80,000
दवाइयों की बिक्री	1,20,000	कन्सल्टिंग रूम का किराया	1,20,000
ऑपरेशन थियेटर का किराया	3,00,000	जीवन बीमा प्रीमियम	24,000
शेयरों पर डिविडेंड	28,000	बिजली खर्च	80,000
बैंक सावधि जमा पर ब्याज	12,000	मेडिकल पत्रिकाएँ	12,000
जन्मदिन का उपहार	5,000	शल्य-उपकरणों का क्रय	60,000
शल्य-उपकरणों की बिक्री	30,000	दिवाली खर्च	18,000
		दवाइयों का क्रय	60,000
		मोटर-कार खर्च	1,12,000
		ऑडिट फीस	12,000
		एसोसिएशन फीस	2,500
		जैव-अपशिष्ट निस्तारण खर्च	4,000

अतिरिक्त जानकारी :

- (1) मोटर-कार का ½ उपयोग निजी उपयोग के लिए है।
- (2) मोटर-कार पर कुल ह्रास ₹ 20,000 वार्षिक है।
- (3) दवाइयों का आरम्भिक एवं अन्तिम स्टॉक क्रमशः ₹ 15,000 और ₹ 20,000 था।
- (4) शल्य-उपकरणों पर ह्रास 20% की दर से है। शल्य-उपकरणों की आरम्भिक (W.D.V.) ₹ 20,000 थी।
- (5) मरीज से प्राप्त ₹ 15,000 के उपहार पुस्तक में दर्ज नहीं है।

उपरोक्त जानकारी से निर्धारण वर्ष 2022-'23 के लिए डॉ. जादव की पेशे से कर-पात्र आय को दर्शाता विवरण तैयार कीजिए।

2. श्री कार्तिक ने पूर्व वर्ष 2021-'22 के लिए निम्न जानकारीयाँ प्रदान की हैं। निर्धारण-वर्ष 2022-'23 के लिए कर-पात्र पूँजी लाभ की गणना कीजिए।

14

सम्पत्ति	क्रय की तारीख	क्रय की कीमत (₹)	विक्रय की तारीख	विक्रय की कीमत (₹)	विक्रय खर्च (₹)
(1) आवासीय मकान	12-03-1981	2,00,000	12-03-2022	77,00,000	50,900
(2) सोना	22-06-2011	3,68,000	22-06-2021	8,60,000	3,800
(3) निजी मोटर-कार	21-07-2002	3,50,000	21-07-2021	1,50,000	1,500
(4) सूचीगत इक्विटी शेयर	23-12-2004	50,000	23-12-2021	4,15,000	2,450

ता. 1-4-2001 को आवासीय मकान का उचित बाजार मूल्य ₹ 4,00,000 था। इस मकान के विक्रय आगम से ₹ 31,00,000 नए आवासीय मकान में निवेश किए गए।

ता. 31-1-2018 को इक्विटी शेयर का उचित बाजार मूल्य ₹ 79,250 था।

लागत-स्फीति सूचकांक निम्नानुसार हैं :

वित्तीय वर्ष	लागत-स्फीति सूचकांक
2001 - '02	100
2002 - '03	105
2004 - '05	113
2011 - '12	184
2021 - '22	317

अथवा

अंकिता कुमारी की पूर्व वर्ष 2021-'22 की निम्न जानकारी से निर्धारण वर्ष 2022-'23 के लिए अन्य स्रोतों से आय शीर्षक के अधीन कर-पात्र आय की गणना कीजिए :

14

	₹
(1) बैंक सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज (सकल)	96,600
(2) 7% पूँजी निवेश बॉण्ड पर प्राप्त ब्याज (सकल)	18,600
(3) पोर्ट ट्रस्ट बॉण्ड पर प्राप्त ब्याज (सकल)	25,000
(4) संगीता लिमिटेड के 7.5% डिबेन्चर पर प्राप्त ब्याज (T.D.S. 10%)	45,000
(5) लॉटरी से प्राप्त निवल आय (T.D.S. 30%)	2,10,000
(6) आनल लिमिटेड के 8% करमुक्त डिबेन्चर पर प्राप्त ब्याज (T.D.S. 10%)	13,500
(7) उप-किरायेदार से प्राप्त किराया	40,000
(8) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के 8% करमुक्त रिलीफ बॉण्ड पर प्राप्त ब्याज	8,000
(9) इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इण्डिया (IDBI) के 8% बॉण्ड पर सकल ब्याज (T.D.S. 10%)	40,000
(10) घुड़दौड़ से सकल आय (T.D.S. 30%)	1,00,000
(11) दादा से जन्मदिन पर प्राप्त उपहार	21,000

3. (A) दिव्या कुमारी ने पूर्व वर्ष 2021-22 के दौरान निम्न निवेश किए हैं। निर्धारण-वर्ष 2022-23 के लिए धारा 80 C के अधीन कटौती की गणना कीजिए।

7

	₹
(a) मान्यता प्राप्त पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा रकम	45,000
(b) स्वयं का जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया	15,000
(c) अमान्य प्रोविडेंट फंड में जमा रकम	20,000
(d) SBI के बचत खाता में जमा रकम	30,000
(e) H.D.F.C. के आवास ऋण का पुनर्भुगतान (जिसमें ₹ 5,000 का ब्याज शामिल है।)	16,000
(f) पोस्ट ऑफिस बचत बैंक खाता में जमा	28,000
(g) पोस्ट ऑफिस के पाँच वर्षीय सावधि जमा खाते में जमा रकम	40,000

(B) “हानियों के आगे बढ़ाने पर” संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 7

अथवा

(A) “अव्याख्यायित निवेश” पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 7

(B) “धारा 80 D के अधीन कटौती” पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 7

4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (कोई दो)

(1) GST परिषद् 7

(2) GST के प्रकार 7

(3) आपूर्ति 7

अथवा

संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए : (कोई दो)

(1) इनपुट टैक्स क्रेडिट 7

(2) IGST 7

(3) व्यवसाय का स्थान 7

5. सही उत्तर चुनिए : (कोई सात) 14

(1) निम्न में से कौन सा व्यय व्यवसाय अथवा पेशा से आय के सन्दर्भ में अमान्य है ?

- (A) आयकर (B) पूँजी व्यय
(C) जीवन बीमा प्रीमियम (D) उपरोक्त सभी

(2) कौन सी आय का व्यवसाय अथवा पेशा से लाभ और प्राप्ति शीर्षक के अधीन समावेश होता है ?

- (A) किरायेदार से प्राप्त किराया (B) इक्विटी शेयर पर प्राप्त डिविडेंड
(C) आवासीय मकान के विक्रय पर लाभ (D) ग्राहक से प्राप्त उपहार

(3) श्री विकास ने अपने व्यवसाय के लिए ता. 1-1-2022 को ₹ 60,000 की कीमत की एक मशीन खरीदी । यदि इस मशीन पर वार्षिक ह्रास की दर 20% हो तो आयकर अधिनियम के अनुसार पूर्व वर्ष 2021-22 के लिए ह्रास की रकम कितनी होगी ?

- (A) ₹ 3,000 (B) ₹ 12,000
(C) ₹ 9,000 (D) ₹ 6,000

- (4) धारा 54 EC के अधीन कटौती केवल तभी उपलब्ध है यदि करदाता ने _____ द्वारा जारी 3 वर्षीय बॉण्ड में दीर्घावधि पूँजी लाभ निवेश किया है ।
- (A) CDSL (B) NSDL
(C) NHAI (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (5) आवासीय सम्पत्ति की उप-किरायेदारी से आय _____ शीर्षक के अधीन कर-पात्र है ।
- (A) मकान सम्पत्ति से आय (B) व्यवसाय से आय
(C) अन्य स्रोतों से आय (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (6) साधारण निवासी को विदेशी कम्पनी द्वारा घोषित और भारत में प्राप्त डिविडन्ड _____ है ।
- (A) पूर्णतः कर-मुक्त (B) आंशिक कर-मुक्त
(C) पूर्णतः करपात्र (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (7) सामान्य नागरिक के लिए धारा 80 D के अधीन मेडीक्लेम प्रीमियम के रूप में ₹ _____ तक की अधिकतम कटौती अनुमत है ।
- (A) 35,000 (B) 25,000
(C) 15,000 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (8) नेत्रहीन अथवा अपंग व्यक्ति को धारा 80 U के अधीन ₹ _____ की कटौती उपलब्ध है ।
- (A) 50,000 (B) 75,000
(C) 1,00,000 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (9) सट्टा-व्यवसाय की हानि को अधिकतम _____ वर्षों के लिए आगे ले जाया जा सकता है ।
- (A) 8 (B) 4
(C) 2 (D) उपरोक्त में से कोई नहीं
- (10) सभी माल और सेवाओं की आपूर्ति पर GST उद्ग्राह्य है, सिवाय
- (A) मानव उपभोग के लिए शराब (B) तम्बाकू
(C) कानूनी सेवा (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

(11) GSTN का पूर्ण रूप क्या है ?

- (A) Goods and Service Tax Network
- (B) Goods and Sales Tax Network
- (C) Government Service Tax Network
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

(12) विलासिता वस्तुओं पर वर्तमान GST दर कितनी है ?

- (A) 28%
 - (B) 18%
 - (C) 38%
 - (D) 12%
-

